

November 30, 2024

To BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001

Scrip Code: 534060

Subject: Intimation of publication of post-issue advertisement with respect to the Rights Issue of Fully paid up Equity Shares of PMC Fincorp Limited ("the Company") pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of the provisions of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

Dear Sir/Madam,

With reference to the captioned subject and in reference to our earlier intimations regarding the Rights Issue of equity shares of PMC Fincorp Limited ("the Company"), enclosed herewith are the copies of Post Issue advertisement made by the Company "Jansatta" (Hindi Edition) and "Financial Express" (English Edition) on November 30, 2024.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

For PMC Fincorp Limited

Kailash Company Secretary & Compliance Officer Membership Number: A51199

Enclosure: a/a

नई दिल्ली

	जनसता   30 न	वंबर, 2024 17	ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिभिटेड				
न्यायमूर्ति चंद्र धारी	हाउन्सिंग फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड पंत्रीकृत कार्यालय : एवसप्रेस बिल्डिंग, तृतीव लल, 9-10, कहारु प्राह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, टेलीफोन : DMI HOUSING FINANCE +91 11 41204444, फेक्स : +91 11 41204000, ई-मेल :dmi@dmihousingfinance.in, U659230L2011PTC216373	सार्यजनिक सूचना आम जनता को सूचित किया जाता है कि डॉ. (श्रीमती) सपना वर्मा और डॉ. दीपक	पूर्व में ओएआईएस ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) (ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्वर सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपर्न पंजीकृत कार्यालय : भूखंड सं. 94, मरोल को–ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400 059 दूरमाष : 91 22 2859 5093 / 6707 0100, फैक्स : 91 22 2852 8549 ईमेल : info@orixindia.com  www.orixindia.com  सीआईएन : यू74900एमएच2006पीएलसी163937				
को इलाहाबाद उच्च	जबकि यहां उल्लेखित ऋणियों/सह - ऋणियों/जमानतदारी/वंधककर्ताओं ने डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम वताते हैं	भाम्बे के नाम पर भटनागर को–ऑपरेटिव	(वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्भाण तथा प्रतिभूति				
न्यायालय भेजने की	कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के वावजूद, ऋणियों/जमानतदारों/वंधककर्ताओं ने देव तिथियों के अनुसार व्याज और मूलधन की अवावगी में विभन्न चूक की हैं। डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेंट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के परिणामस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गटन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन	हाउस सोसाइटी लिमिटेड कॉलोनी जिसे	हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना)				
	अधिनियम 2002 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार खाते को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा	चित्रा विहार दिल्ली—110092 के नाम से जाना जाता है, के लेआउट में प्लॉट नं.	निम्नलिखित ऋणकर्ताओं एवं सह—ऋणकर्ताओं ने ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से निम्नवर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए ध निम्नवर्णित ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पाल				
सिफारिश	13(2) के तहत नीचे उल्लेखित संबंधित तिथियों पर मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें निम्नलिखित ऋणियों/ गारंटरों/बंधककर्ताओं से नोटिस में उद्धिखित राशि + अनुबंध की दर पर अतिरिक्त व्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ नोटिस प्राप्त करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा जाता है।	01 पर स्थित संपत्ति के लिए दिनांक 06. 07.2004 की मूल स्वीकृत बिल्डिंग प्लान	करने में विफल हो चुके थे और अनियमित बन चुके थे, अतः उनके ऋणों को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया ग था। इस प्रकार उनकी ओर से ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय—भुग्तेय बकाया राशियां जो हैं वे उन संबंधित निग सूचनाओं के अनुसार अंकित हैं, जिन्हें अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में विवरणित किया गया है तथा उक्त राशियों पर भावी ब्याज भी लागू हो तथा वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित होगा।				
जनसत्ता ब्यूरो	क. ऋणियों का नाम व पता सम्पात्त का ऋण राश वकाया राश नाटिस सं. विवरण (रूपये) (रूपये) दिनांक	खो गई है। यह संपत्ति बैंक ऑफ बड़ौदा, विकास मार्ग शाखा, दिल्ली के पास	क अरण खाता अरण का अरणकर्ताओं 13(2) सूचना सूचना प्रतिभूत परिसंपत्ति				
नई दिल्ली, 29 नवंबर ।	1. ा. जमदेव कुमार साहनी पुत्र सुनू साहनी. २. रेनू देवी पत्नी जमवेव साहनी 'फलैट नंबर रू., रूपये 5,75,820/- 23/10/2024	गिरवी रखी गई है। इस संबंध में दिल्ली	सं. संख्या प्रकार के नाम के अनुसार तिथि के विवरण बकाया				
सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चंद्र धारी सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है।	3. लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह (गार्रटर होने के नाते)   3. लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह (गार्रटर होने के नाते)   3. लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह (गार्रटर होने के नाते)   3. लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह (गार्रटर होने के नाते)   3. लक्ष्मण सिंह पुत्र अमर सिंह (गार्रटर होने के नाते)   3. जिसमें विनाक   5.35.265/-   जिसमें विनाक   5.35.265/-   जिसमें विनाक   5.35.265/-   जिसमें विनाक   5.35.265/-   10.02024     भिवाई। तिजाश, केपिटल मॉल के पास, अलवर, राजस्थान 301019, अन्य पता- रविंदर   गांधी एन्क्लोव   गांधी एन्क्लोव   7.85ण रखाला   21 अक्टूबर, 2024   एनपीए     पंटरप्राइजेज प्रयाग पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड में नियुक्त, ए-1129 रीको औद्योगिक क्षेत्र   गांधी एन्क्लोव   संखया   तक उपार्जित व्याज.   103/09/2024     पंठरप्राइजेज प्रयाग, पोल्म के कोटो, करमा, करामंग, विहार 847121, अन्य पता-   कॉलोनी, भिवाई।   मिट0033118630   अन्य वकावा एवं   03/09/2024     प्रतरे ते. वीऽ/एफएफ/01 प्रथम तल, राजीव गांधी एक्त्रेव बोजना, युआइंटी कॉलोनी,   मिवाई। राजस्थान   भिवाई।, राजस्थान   9.03/09/2024   03/09/2024     प्रतरे ते. वीऽ/एफएफ/01 प्रथम तल, राजीव गांधी एक्त्रेव बोजना, युआइंटी कॉलोनी,   भिवाई।, राजस्थान   श्रानिल टपुकडा,   9.65/100   9.65/100   9.65/100   03/09/2024     प्रतरे ते. वीऽ/एफएफ/01 प्रधम तल, राजीव गांधी एक्त्रेव बोजना, युआइंटी कॉलोनी,   भिवाई।, राजस्थान   श्रानिल टपुकडा,   9.65/100   9.65/100   9.	पुलिस में एलआर नंबर 2256134 / 2024 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यदि किसी को ऊपर बताए गए दस्तावेज / शीर्षक विलेख मिले हैं या उनके पास उक्त दस्तावेज के बारे में कोई	1.   LN0000000019353   एसएमई   1. मंजू भाटिया   आईएनआर   23.11.2024   दुकान नं. 55 (छताधिकारों के साथ) के समस्त वह भाग तथा अंध     1.   प्रतिभूत   आनु भाटिया   आईएनआर   46,08,660.92 / -   23.11.2024   दुकान नं. 55 (छताधिकारों के साथ) के समस्त वह भाग तथा अंध     &   .   भानु भाटिया   आईएनआर   46,08,660.92 / -   23.11.2024   दुकान नं. 55 (छताधिकारों के साथ) के समस्त वह भाग तथा अंध     .   .   भानु भाटिया   अईएनआर   46,08,660.92 / -   .   .     .   .   .   भानु भाटिया   आईएनआर   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .<				
वापस भजन का सिफारिश का है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कालेजियम ने	डिंगसे कामा रोड, डिडावली, भरलपुर, डींग, राजस्थान 321203, अन्य पता- कैप्सुगेल हेल्थकेवर प्राइवेट लिमिटेड, 21 जोनिवास धारूहेड़ा, जिला रेवाडी हरियाणा 123110 कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 1.3(13) के तहत, कोई भी ऋणी प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना नोटिस में निर्दिष्ट अपनी किसी भी प्रतिभूति	जानकारी है, तो उनसे अनुरोध है कि वे इसे वापस कर दें या नीचे दिए गए विवरण पर संपर्क करें:	2. LN000000010946 एसएमई प्रतिभूत ऋण 1. मैसर्स शर्मा टीवी सेंटर ऋण आईएनआर टीवी सेंटर 2. कंवर पाल शर्मा 3. रेखा 23.11.2024 पूरी तरह से निर्मित स्वामित्वधारक संपत्ति सं. डब्ल्यूजेड-700/र के समस्त वह भाग तथा अंश, (पुराना प्लॉट नंबर 9), क्षेत्रफल 51 वर्ग गज, अर्थात् 43 वर्ग मीटर, दिल्ली के शकूरपुर गांव के क्षेत्र, अ				
एक अहम बैठक में यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि 28	आस्ति को विक्री, पट्टे या अन्य के माध्यम से स्थानांतरित नहीं करेगा। स्थानः राजस्थान दिनांकः 29.11.2024 प्राधिकृत अधिकारी	शाखा विवरण— विकास मार्ग शाखा, 105, नई राजधानी एन्क्लेव, दिल्ली—110092, भारत	श्री नगर नामक कॉलोनी, शकूर बस्ती, दिल्ली—110034 में स्थित तथ निम्नानुसार परिसीमित है : <b>पूर्व :</b> अन्य की संपत्ति, <b>पश्चिम :</b> अन्य क संपत्ति, <b>उत्तर :</b> गली 15 फीट, <b>दक्षिण :</b> प्लॉट नं. 9 का शेष भाग।				
न्यायाधीश चंद्र धारी सिंह को उनके मूल इलाहाबाद उच्च	पिरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड Capital & Housing Finance शाखा कार्वालय : पॉट नं6. व्लॉक ए. सेक्टर-2. नोएडा. उ.प्र201 301 संपर्क व्यक्ति : 1. पंकज कश्यप:- 9136178689, 2. निककी कुमार- 965066340, 3. ग्रेहन सावत:-9833143013 है-नीलामी बिल्ली सूटना-नवीन बिल्ली	मेलः blydef@bankofbaroda.co.in संपत्ति के मालिक: डॉ. सपना वर्मा पत्नी अखिलेश कुमार वर्मा और डॉ. दीपक भांबे पुत्र नरेंद्र कुमार भांबे	आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय– तालिका में निदर्शित विवरणों के अनुसार बकाया राशियों का उनकी संबंधित तिथियों से उन पर ब्याज की संविदाकृत दर पर आकलित ब्याज एवं अन्य लागतों, के साथ भुगतान करें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता, ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय–भुग्तेय राशि की लेए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाहियां आरंभ करने को बाध्य–विवश नहीं, इसके अतिरिक्त आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति का विक्रय/पट्टा के म अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। दिनांक : 23–11–2024				
न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति	ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत <b>पीरामल कैपिटल एण्ड</b> हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की ''जैसा है जहां		स्थान : दिल्ली ओरिक्स लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लमि				
चंद्र धारी ने वर्ष 1993 में दिल्ली	है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं : ऋण कोड⁄ शाखा/कर्जदार( रो)/ मांग सुचना की तिथि सम्पत्ति का आरक्षित मुल्य जमा धरोहर राशि बकाया राशि		purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or a b hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined here				
विश्वविद्यालय से कानून में	सह-कर्जदार(रो)/ एवं राशि पता-अन्तिम (ईएमडी) (आरपी (26-11-2024)	shall have the meaning assigned to them in t	the Letter of Offer dated October 25, 2024, the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange"), and the				
स्नातक की उपाधि प्राप्त की और	त्रहण कोड संख्याः M0024564, दिनांक: 10-01-2023, अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग : रु. 1810000/-, रु. 181000/-, रु. 3179738/-,	Securities and the Exchange Board of India (*S	seer).				
20 जुलाई 1994 को एक वकील	नोएडा (शाखा), रॉकी (कर्जदार), रू. 2755540/-, मकान नं. 747, सम्पूर्ण भूतल, (रुपये अठारह लाख (रुपये एक लाख (रुपये इकतीस लाख उन्यासी सुमन (सह-कर्जदार 1) (रुपये सत्ताईस लाख पचपन ब्लॉक-बी, दिल्ली-110085 दस हजार मात्र) इक्यासी हजार हजार सात सौ अड़तीस						
के रूप में पंजीकरण कराया।	हजार पांच सौ चालीस मात्र) मात्र) मात्र)						
उन्होंने उच्चतम न्यायालय में	ऋण कोड संख्या: M0075901,     दिनांक: 17-08-2023,     अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग :     रू. 2790000/-,     रू. 2790000/-,     रू. 3052235/-,       दिल्ली - पीतमपुरा (शाखा),     रू. 2616756/-,     सम्पत्ति नं. 27, 28 तथा 29, दूसरी     (रुपये सताईस     (रुपये दो लाख     (रुपये तीस लाख बावन	_					
'एडवोकेट-आन रिकार्ड' के रूप	वेद ब्यास (कर्जदार), रेखा कुमारी (रुपये छब्बीस लाख सोलह मंजिल, नं. ए-4, छत के अधिकार रहित, लाख नब्बे हजार उन्यासी हजार दो सौ पैंतीस		PMC FINCORP LIMITED				
में वकालत की और छह सितंबर,	वी (सह-कर्जदार 1) हजार सात सौ छप्पन मात्र) पिछला बायां भाग, नांगलोई जट, ग्राम मात्र) मात्र) मात्र) मात्र) मात्र) नांगलोई जट, 110041	Our Company was originally incorporated wit	In the name and style of Priti Mercantile Company Limited under the Companies Act, 1956, and a certificate of incorporation was granted by the				
2019 को उन्हें स्थायी न्यायाधीश के कैर पर जिस्तर किसी	ई-नीलामी की तिथि : 06.01.2025, 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित), संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 05.01.2025 को		uary 04, 1985. Subsequently, the name of the Company was changed from "Priti Mercantile Company Limited" to its present name i.e. "PMC Fincol n was granted by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh on March 20, 2014. For detailed information of the change of Registered Office please				
के तौर पर नियुक्त मिली।	4.00 बजे अप. से पूर्व बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए www.piramalfinance.com/e-Auction.html में प्रावधानित लिंक देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ई-मेल करें।	refer to chapter "General Information" on page	1941 MAN 등 시간 방법 방법 방법 등 입장에서 있는 것이 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 이렇게 하는 것이 이렇게 하는 것이 이렇게 하는 것이 이렇게 하는 것이다.				
मध्य प्रदेश : मशाल	कर्जदार∕जमानती∕बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दिवसीय साविधिक सूचना उपरोक्त उल्लिखित कर्जदार/गारंटर को एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से नीलामी की तिथि से पहले तक करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलमी/बिक्री की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।	Registered Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, Uttar Pradesh - 244901, India. Corporate Office: Flat No. 201 & 202, 2nd Floor, Rattan Jyot Building, 18, Rajendra Place, New Delhi- 110008, India. Telephone No.: 011-47631025, 26, 27; Email: <u>contact@pmcfincorp.com</u> ; Website: <u>www.pmcfincorp.com</u> Contact Person: Mr. Kailash, Company Secretary, and Compliance Officer					
जुलूस के दौरान	तिथि : 30.11.2024, स्थान : दिल्ली ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड		Corporate Identification Number: L27109UP1985PLC006998				
	<b>G</b> Piramal पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सीआईएन : L65910MH1984PLC032639	MR RA	PROMOTERS OF OUR COMPANY: J KUMAR MODI, MS. REKHA MODI, MR. PRABHAT MODI AND M/S RAJ KUMAR MODI HUF				
30 लोग झुलसे	W Capital & Housing Finance पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर -601, 6टी मंजिल पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉपोरेंट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070 दूरभाष : +91 22 3802 4000		IVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF PMC FINCORP LIMITED ONLY				
खंडवा, २९ नवंबर (भाषा)।	र्ष्ट्रांग के सामन, इराबाइस मान, कुराबाइस मान, कुरा (नावम), नुवइ-400070 दूरमाव : म्झा 22 3802 4000 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं6, ब्लॉक ए, सेक्टर-2, नोएडा, उ.प्र201 301 संपर्क व्यक्ति : 1. पंकज कश्यप:- 9136178689, 2. निक्की कुमार- 9650606340, 3. रोहन सार्वत:-9833143013 ई-नीलामी बिद्रग्नी सूटना-नवीन बिद्रग्नी	ISSUE OF UP TO 17,80,20,400 FULLY PAID- ₹ 2.75/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INC	UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT AN ISSUE PRICE O CLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹1.75/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹4,895.56/- LAKH ON A RIGHT				
	ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत <b>पीरामल कैपिटल एण्ड</b>		TY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-U				

मध्यप्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 30 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

खंडवा जिले के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने फोन पर कि यह घटना गुरुवार आधी रात के आसपास हुई, जब जुलूस शहर के क्लॉक टावर पर समाप्त हो रहा था। उन्होंने कहा कि जलती मशालों को उल्टा करके उन्हें बुझाने के लिए पानी से भरे कंटेनर में डाला जा रहा था, तभी अचानक आग की लपटें धधक उठीं। कुछ सेकंड तक धधकती इन लपटों से आसपास के लोग झूलस गए।

अधिकारी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों समेत 30 लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया। उनमें से 18 को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। राय ने कहा कि शेष 12 लोगों का इलाज किया जा रहा है और सभी खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित 'छात्र इस्लामिक मूवमेंट आफ इंडिया' (सिमी) के सदस्यों द्वारा 28 नवंबर 2009 को मारे गए पुलिसकर्मी सीताराम बाथम सहित तीन लोगों की याद में हर साल मशाल जुलूस निकाला जाता है।



जम्मू जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) आनंद जैन ने चेतावनी दी है कि राष्ट्र विरोधी इरादे रखने वाले या आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

जैन ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने पर उसकी सचना देकर

ऋणधारक/ कों से बकाये राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **पीरामल कैपिटल एण्ड** हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की ''जैसा है जहां है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित हैं :

	,						
ऋण कोड⁄ शाखा/कर्जदार(रो)/	मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति का	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि	बकाया राशि		
सह−कर्जदार( रों )∕	एवं राशि	पता−अन्तिम		( ईएमडी ) ( आरपी	(26-11-2024)		
जमानती( यों )				का 10%)			
ऋण कोड संख्याः M0024564,	दिनांक: 10-01-2023,	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः	रू. 1810000/-,	रू. 181000/-,	रू. 3179738∕-,		
नोएडा (शाखा), रॉकी (कर्जदार),	<b>.</b> 2755540∕−,	मकान नं. 747, सम्पूर्ण भूतल,	(रुपये अठारह लाख	(रुपये एक लाख	(रुपये इकतीस लाख उन्यासी		
सुमन (सह-कर्जदार 1)	(रुपये सत्ताईस लाख पचपन	ब्लॉक-बी, दिल्ली-110085	दस हजार मात्र)	इक्यासी हजार	हजार सात सौ अड़तीस		
	हजार पांच सौ चालीस मात्र)			मात्र)	मात्र)		
ऋण कोड संख्या: M0075901,	दिनांक: 17-08-2023,	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः	रू. 2790000/-,	फ. 279000∕-,	रू. 3052235∕-,		
दिल्ली - पीतमपुरा (शाखा),	रू. 2616756∕−,	सम्पत्ति नं. 27, 28 तथा 29, दूसरी	(रुपये सत्ताईस	(रुपये दो लाख	(रुपये तीस लाख बावन		
वेद ब्यास (कर्जदार), रेखा कुमारी	(रुपये छब्बीस लाख सोलह	मंजिल, नं. ए-4, छत के अधिकार रहित,	लाख नब्बे हजार	उन्यासी हजार	हजार दो सौ पैंतीस		
वी (सह-कर्जदार 1)	हजार सात सौ छप्पन मात्र)	पिछला बायां भाग, नांगलोई जट, ग्राम	मात्र)	मात्र)	मात्र)		
		नांगलोई जट, 110041					
ई-नीलामी की तिथि : 06.01.2025, 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित), संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 05.01.2025 को							
4.00 बजे अप. से पूर्व							

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शतौ के लिए www.piramalfinance.com/e-Auction.html में प्रावधानित लिंक देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ई-मेल करें। कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 30 दिवसीय सांविधिक सुचना

उपरोक्त उल्लिखित कर्जदार/गारंटर को एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से नीलामी की तिथि से पहले तक करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसुल किया जाएगा।

तिथि : 30.11.2024, स्थान : दिल्ली ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

## PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF **AARVEE DENIMS AND EXPORTS LIMITED**

Registered Office: 191, Shahwadi, Near Old Octroi Naka, Narol Sarkhej Highway, Narol, Ahmedabad - 382405, Gujarat, India | CIN: L17110GJ1988PLC010504 | Tel. No: 079-30417000

Email: cs@aarveedenims.com | Website: www.aarveedenims.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 60,99,548 EQUITY SHARES REPRESENTING 26.00% OF THE EQUITY SHARE CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF AARVEE DENIMS AND EXPORTS LIMITED. BY JAIMIN KAILASH GUPTA ("ACQUIRER") ALONG WITH TARACHAND GANGASAHAY AGRAWAL ("PAC 1") AND QMIN INDUSTRIES LIMITED ("PAC 2") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS. (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER").

"This public notice ("Notice") is being issued by Vivro Financial Services Limited, the Manager to the offer ("Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer.

1. This is to bring to the notice of Public Shareholders that the dispatch of Letter of Offer to the Public Shareholders of Aarvee Denims and Exports Limited was completed on November 08, 2024, through email and speed post. Those Public Shareholders who have not received the Letter of Offer through email or speed post may download the same from website of SEBI at www.sebi.gov.in, website of BSE at www.bseindia.com, website of NSE at www.nseindia.com or website of the Manager to the Offer at www.vivro.net.

2. Public Shareholder having any queries regarding Open Offer or for requirement of physical copy of LOF may contact Registrar to the Offer or Manager to the Offer.

MANAGER T	0 THE OFFER		REGISTRAR TO THE OFFER		
VIVRO FINANCIAL SERVICE Address: Vivro House, 11 Sh Shopping Centre, Paldi, Ahme Gujarat, India. Tel No.: 079-4040 4242 Email: investors@vivro.net.] SEBI Reg. No.: MB/INM0000 Contact Person: Shivam Pate	ashi Colony, Opp. Suvidha edabad - 380007. Website: www.vivro.net 10122	LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083, Maharashtra, India. Tel. No.: +91-8108114949 Email: aarvee.offer@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in SEBI Reg. No.: INR000004058 Contact Person: Pradnya Karanjekar			
Capitalized terms used but not di For and on behalf of the Acquire	94949 - PAR943	all have the meani	ing assigned to such terms in the LOF.		
Sd/- Jaimin Kailash Gupta ("Acquirer")	Sd/- Tarachand Gangas ("PAC-1")	ahay Agrawal	For, Qmin Industries Limited Sd/- Khushant Gupta (Director) ("PAC- 2")		

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिभिटेड

सीआईएनः U67100MH2007PLC174759

EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON FRIDAY, OCTOBER 25, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 128 OF THE LETTER OF OFFER.

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of PMC Fincorp Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Thursday, November 07, 2024 and closed on Tuesday, November 19, 2024, and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, November 12, 2024, Out of the total 6,289 Applications for 22,80,38,530 Rights Equity Shares, 888 Applications for 39;07,900 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid applications received were 5,401 Application for 18,69,62,993 Rights Equity Shares, which was 105.02% of the issue size. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of allotment finalized on November 25, 2024, the Registrar to the Issue and BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on November 25, 2024, allotted 17,80,20.400 Rights Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for allotment.

1. The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below:

Category	Number of Valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	No. of Rights Equity Shares Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares Allotted against Additional Rights Equity Shares Applied for (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (C=A+B)
Eligible Equity Shareholders	5,341	17,72,70,588	8,77,68,847	8,50,60,215	17,28,29,062
Renouncees	60	96,92,405	51,91,338	0	51,91,338
Total	5,401	18,69,62,993.00	9,29,60,185	8,50,60,215	17,80,20,400

### 2. Information regarding total Applications received:

	Applications	Received	Rights E	quity Shares Applied f	Rights Equity Shares Allotted				
Category	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%	
Eligible Equity Shareholders	5,406	85.96	21,47,12,210	59,04,58,577.50	94.16	17,28,29,062	47,52,79,920.50	97.08	
Renouncees*	61	0.97	96,92,905	2,66,55,488.75	4.25	51,91,338	14,27,61,79.50	2.92	
Other Rejected Bids	822	13.07	36,33,415	99,91,891.25	1.59	0	0	0.00	
Total	6,289	100.00	22,80,38,530	62,71,05,957.50	100.00	17,80,20,400	48,95,56,100.00	100.00	

"the investors (identified on the basis of PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the Issue are considered as Renouncees.

Intimation for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on November 25, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Application were given on November 25, 2024. The listing application was filed with BSE on Tuesday November 26, 2024, and subsequently the listing approval was received on Wednesday, November 27, 2024 from BSE. The credit of Rights Equity Shares in the dematerialized form to the espective demat account of allottees was completed on November 28, 2024 & November 29, 2024, in CDSL & NSDL respectively. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE with effect from Tuesday December 03; 2024. The Rights Equity Shares will traded under the same ISIN as Equity Shares (i.e. INE793G01035). In accordance with the SEBI Circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of ISIN pertaining to Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on Thursday, November, 2024

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleare or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of the BSE Limited." on page 175 of the LOF.

REGISTRAR TO THE ISSUE



Skyline Financial Services Private Limited Address: D-153A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 Telephone: 011-40450193-197 E-mail: ipo@skylinerta.com / grievances@skylinerta.com Investor grievance: grievances@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com Contact Person: Mr. Anuj Rana SEBI Registration No: INR000003241

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE, THE RIGHTS EQUITY SHARES, OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For PMC Fincorp Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Kailash
Company Secretary and Compliance Officer

The letter of Offer is available on the website of SEBI www.sebi.gov.in, the Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com and the company i.e. www.pmclincorp.com . Investors should note that the investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled 'Risk Factors' beginning on page 23 of the LOF.

### ई-नीलामी बिक्री सूचना

एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड सीआईएन : U67100MH2007PLC174759 रिटेल मेंटल एवं पंजीकत कार्यालय - एडलवाइम हाउम ऑफ सीएसटी रोड कलीना मर्स्वर्ड-400098

लगने पर उसकी सूचना देकर	रिटेल सेंट्रल एवं रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098									रिटेल सेंट्रल एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुम्बई-400098									
कानून प्रवर्तन एजंसियों के साथ	वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सुरक्षित									प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा									
सहयोग करें। जैन ने कहा, 'राष्ट्र	संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठितं)										प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना								
विरोधी इरादे रखने वालों या		प्रर्विस लिमिटेड ("असाइनर") की वित्तीय सुवि								प्रावः	धानित कॉलम में र	स्पष्ट रूप से उल्लिखित ईएआरसी-ट्रस्ट-एस	सी-379 के व	ट्रस्टी के रूप में अपनी क्ष	मता में कार्यरत एड	लवाइस एसेट	रीकंस्ट्रक्शन क	म्पनी लिमिटेड	(इसके बाद
आतंकवादियों को किसी भी प्रकार		ारसी–ट्रस्ट–एससी–482 के ट्रस्टी के रूप में अ आ गया है और सुरक्षित लेनदार के रूप में अ								"ईएआरसी ∕एसाइनी'' सन्दर्भित) को एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (''एयू बैंक''∕'एसाइनर'') की वित्तीय सुविधाएं एसाइन कर दी गयी हैं, कथित एसाइनमेंट के अनुसार ईएआरसी एसाइनर के स्थान पर आ गया है और प्रतिभूति लेनदार के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग करता है। यह कि ईएआरसी ने प्रतिभूत लेनदार की अपनी क्षमता में सरफैसी अधिनियम 13(4) तथा उसके तहत									
की सहायता प्रदान करने वालों को	13(4) और उसके तहत	नियमों के तहत नीचे उल्लिखित अचल सुरक्षि	त परिसंपत्तियों	पर कब्जा कर लिया था।	0							5 और प्रतिभूति लेनदार के रूप में अपने अधिव वर्णित अचल प्रतिभुत आस्तियों पर कब्जा कर f		ग करता है। यह कि ईएआर	सी ने प्रतिभूत लेनदार	की अपनी क्षमता	में सरफैसी अधि	नियम 13(4) तः	था उसके तहत
गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।'		शेष रूप से ऋणी, सह—ऋणी, कानूनी उत्तराधि नका भौतिक कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधि								एतद्व	ारा जनसामान्य को	तथा विशेष रूप से कर्जदार, सहकर्जदार(रों),	विधिक उत्तराषि						
उन्होंने कहा कि नागरिकों को	ईएआरसी को देय नीचे	उल्लिखित राशियों की वसूली की जा सके,	साँथ ही ईएआ	रसी द्वारा ऋणी तथा गारंटर	से प्राप्त किसी भी	राशि के लिए आ	गे ब्याज तथा अन्य	य व्यय / लागतों व	की कटौती की			h भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्रा							
सतर्क रहना चाहिए और किसी भी	जा सके। संपत्ति के लिप विचार किया जाएगा।	ए आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लि	खित है। इसके	ं द्वारा किसी भी पूर्व नीलामी	नोटिस को तत्काल	प्रभाव से वापस	लिया/वापस लिय	ा जाता है तथा इ	इस नोटिस पर			खेत राशियों तथा भावी ब्याज एवं अन्य व्ययों/ला न्य तथा जमा धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखि							
संदिग्ध गतिविधि का पता लगने			ई-नीलामी वे	लिए रखी गई सुरक्षित संप	गत्ति का विवरण									हेतु प्रतिभूत आस्तियों			and g on Qu	<i>X</i>	
पर उसकी सूचना देकर कानून	क्रं. ऋण खाता	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ 	ट्रस्ट का		28.11.2024 तक		बयाना राशि			क्र.	ऋण खाता	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर के नाम	ट्रस्ट का	बैंक तथा शाखा का	20.11.2024 तक	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर	नीलामी की	कब्जे का
प्रवर्तन एजंसियों के साथ सहयोग	सं. संख्या/विक्रय संस्थान	गारंटर का नाम	नाम	नाम, खाता, संख्या और आईएफएससी	कुल बकाया	) मूल्य (रूपय में)	जमा (ईएमडी) रूपये में	ाताथ एव समय	प्रकार	सं.	सं.∕विक्रेता		नाम	नाम, खाता संख्या,	कुल बकाया	(रु. में)	राशि ( <del>र्जगान्ती</del> )	तिथि एवं	प्रकार
करना चाहिए।	E Gesteration			कोड आईसीआईसीआई बैंक		1997					संस्थान			आईएफएससी कोड	राशि रु.		(ईएमडी) (रु. में)	समय	
जैन ने आतंकवादियों के	1. 2229494	रेणु देवी (उधारकर्ता) अशोक सिंह (सह–उधारकर्ता)	EARC- TRUST-	लिमिटेड, नरीमन पॉइंट,	₹ 18.01,856.75/-	5,50,000/-	55,000/-	24.12.2024 अपराह्व	भौतिक	1.	900106070	संदीप चांदलिया (कर्जदार) तथा प्रतिभा		आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट	7	₹		07.01.2025	भौतिक
पारिस्थितिकी तंत्र और नेटवर्क पर नकेल कस कर क्षेत्र की शांति को		के साथ	SC-482	(000405135403) आईएफएससी आईसीआईसी0000004	)i			04:30 ਕਰੇ			0500775	चांदलिया एवं कमलेश कुमार तेली (सह-कर्जदार)	TRUST- SC-379	( 000405118253 ) आईएफएससी ICIC0000004	30,36,541.56 /-	15,10,000/-	1,51,000/-	को 1:30 बजे अप.	
बरकरार रखने के जम्मू-कश्मीर		पहली मंजिल का वह पूरा टुकड़ा और हूल भूमि क्षेत्रफल 173 वर्ग गज में से, ख									ने का विवयण	। – कपासन, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान	। गों ग्रिथन गि		्रमणस्त भागः माप	 1693 5 तर्म प	ीर है। इसका र	मालिक संटीप	चंदालिया है
पुलिस के संकल्प को व्यक्त किया		, भी — 110045, जिसके अंतर्गत आनुपातिव										पश्चिमः सुरेश कुमार मदन लाल, उत्तरः गण		,	,	1005.5 441 4	10 01 20141	નારાજ રાષાન	9911191 0,
और आतंकवादी गतिविधियों में		बंध में महत्वपूर्ण जानकारीः								नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण सूचना :									
शामिल लोगों की संपत्तियों को	~	शफ्ट (डीडी) ऊपर बताए अनुसार ट्रस्ट के न	ाम के पक्ष में	3	_					1		s ड्राफ्ट (डीडी) उपर्युक्त के अनुसार ट्रस्ट							
कुर्क करने के महत्व पर जोर		करने की अंतिम तिथि		नीलामी की तारीख से 1						2		करने की अन्तिम तिथि		नीलामी की तिथि से 1 दिन पूर्व प्राप्त रिटेल सेंट्रल ऑफिस, मुम्बई (नीचे उल्लिखित)					
दिया। उन्होंने बताया कि 29 फरार	3. बोलियां जमा			रिटेल सेंट्रल ऑफिस, मुंबा		-				3		ा करने का स्थान स्थान (नीलामी हेतु वेबसाइट)		ास्टल सट्रल आफिस, मु ई-नीलामी (https://au					
आतंकवादियों की संपत्तियों की	4. नालामी का स 5. संपर्क नंबर	थान (नीलामी के लिए वेब साइट)		ई-नीलामी (https://auc 18002666540	tion.edelweissar	c.in)				4		स्थान ( नालामा) हतु वबसाइट ) पहित सम्पर्क व्यक्ति		18002666540	ction.edelweissar	c.in )			
पहचान की गई हैं। एडीजीपी ने		रीक्षण की तिथि और समय		पूर्व नियुक्ति के अनुसार						6	0	नेरीक्षण की तिथि एवं समय		पूर्व अनुमति के अनुसार					
कहा, 'उनकी संपत्ति कुर्क करने		मों और रातीं के लिए, कृपया ईएआरसी की		r 3 3	weissarc.in पर दि	ए गए लिंक को	देखें।			बिर्क्र	। ो के विस्तत नियम	एवं शर्तों के लिए कृपया ईएआरसी की वेबसाइ	ट https://au	ction.edelweissarc.in	में प्रावधानित लिंक व	फ्रा सन्दर्भ लें।			
की प्रक्रिया जारी है और यह जल्द	दिनांकः 30.11.2024 र			अधिकारी (ईएआरसी-ट्रस्ट				क्शन कंपनी लि	मिटेड के लिए		: 30.11.2024 <i>,</i>		-	धिकृत प्राधिकारी ( ईएआर			ल्वाइस एसेट	रीकंस्ट्रवशन कम	यनी लिमिटेड,
ही पूरी हो जाएगी।				Edelweiss										Edelweiss					
																		_	

Date: November 29, 2024

Place: New Delhi

www.readwhere.com

## **FINANCIAL EXPRESS**

## COMPANIES 13

## **SALE SEASON**

Air India said it would offer up to **12%** off on base fares for flights to or from the US, Europe, Australia, Southeast Asia, and South Asia.

Air India will offer more discounts if bookings are made via UPI, net banking

The discounts can be availed only from the airline's website & ICICI credit cards and mobile apps



Customers can also book seats for ₹99 and enjoy discounts of up to 15% on pre-paid excess baggage

Indigo said the

sale would

Jan 1- Mar 31

## KTM rejig unlikely Xebia's AI revenue at 25%, firm targets to treble it

PADMINI DHRUVARAJ Bengaluru, November 29

**GLOBAL IT CONSULTANCY** and services company Xebia is now generating a quarter of its revenue from artificial intelligence (AI), with plans to triple this figure within three years, the firm's global CEO Anand Sahay told FE.

Speaking about the company's focus, Sahay explained that AI has become integral to their operations and growth strategy, particularly through initiatives such as embedding AI in software development and creating small language models (SLMs). "Our revenue from AI stands at 25% today, and this is only set to grow. We see AI as a driver of transformation, not just productivity," Sahay said.

AI has significantly enhanced developer productivity at Xebia. The time required

Through AI, our developers have become more efficient. Tasks that used to take hours or days can now be completed much faster, freeing up time for innovation

for developers to execute tasks has been reduced by 60%, while the time needed to create use cases has seen a 30% cut. These efficiencies have been achieved by leveraging AI tools such as copilots and embedding AI within the software development lifecycle (SDLC), he added.

"Through AI, our developers have become more efficient.

Ultraviolette aims to hit full

output capacity in 2-3 years

Tasks that used to take hours or days can now be completed much faster, freeing up time for innovation," Sahay said.

ANAND SAHAY, GLOBAL CEO, XEBIA

He added that the use of AI has also elevated skill levels."A 4-5 year experienced developer is now operating at the level of someone with 12 years of experience, thanks to the capabilities AI brings to the table," he said.

expansion plans across differ-

ent cities," he said, adding that

the company expects to achieve

full capacity of 30,000 vehicles

in three shifts by 2027.

to impact its India partnership ops

SWARAJ BAGGONKAR Mumbai, November 29

**ASTHEAUSTRIAN** motorcycle brand KTM struggles to raise capital at home, the 17-yearold Bajaj Auto-KTM partnership in India is unlikely to be affected by this financial turmoil as operations are expected to continue as usual.

Bajaj Auto manufactures and sells two-wheelers for KTM and other brands from its factory near Pune, under an agreement with Pierer Mobility, which owns the troubled company KTM AG.

Notably, KTM filed for judicial restructuring proceedings on Friday with self-administration, as its management does not expect to be able to secure the necessary'high three-digit' million figure funding.

"Indeed, this is an exercise to address the issue of expanded debt and liquidity. KTM AG has always been run as an independent company, though Bajaj is, of course, supportive. Various options will be developed by them over the next 90 days," said a source privy to the matter.

"The local India business of

## **REORGANISATION PLANS**

KTM filed for judicial restructuring proceedings on Friday with selfadministration, as its management does not expect to be able to secure the necessary funding

Bajaj Auto International Holdings BV (BAIH), the 100% subsidiary of Bajaj Auto, is the holding company for the equity stake held in Pierer Mobility. In FY24, BAIH, the biggest subsidiary of Bajaj Auto, contributed 3.68% to the consolidated net profit of Bajaj Auto of ₹7,708 crore.

KTM, managed by Bajaj Auto,

of products made and sold

here is not affected and carries

on as usual," the source added

restructuring proceedings,

kick-started by Pierer Mobility,

is to agree on a reorganisation

plan with the creditors within

90 days. A redimensioning is

intended to sustainably secure

the existence of the KTM

A mail sent to Pierer Mobil-

ity remained unanswered at

Group, the company stated.

the time of going to press.

The aim of the judicial

Bajaj Auto has a capacity of 145,000 units per year at its Chakan factory. During FY24, nearly 65,000 units of KTM motorcycles were sold in India and an unspecified number were exported to markets like the US, Europe, the UK and Latin America.

> 📕 Bajaj Auto International Holdings BV (BAIH), a 100% subsidiary of Bajaj Auto, is the holding company for the equity stake held

# **DISCOUNT OFFERS LIVE FROM NOV 29 TO DEC 2** Now, airlines line up **Black Friday deals**

 Air India offers up to 20% off on base fares for domestic flights

### **RAGHAVAGGARWAL** New Delhi, November 29

INDIAN AIRLINES SUCH as Air India and IndiGo on Friday announced their Black Friday Sale, offering discounts of up to 20% for flights between January 1 to March 31. The bookings for these offers is open from November 29 till December 2.

apparel brands like H&M and Superdry, and tech giants like

Apple, Samsung and Amazon. On Friday, Tata Groupowned Air India said it would offer up to 20% off base fares for domestic flights in India,

and up to 12% off base fares for flights to or from the United States, Europe, Australia, Southeast Asia, and South Asia.

The discount will be valid for travel until June 30, 2025. For flights to and from India to Australia and North America, the discounts will be available

Bank credit cards.

IndiGo, India's largest airline, announced that it would offer discounts for flights between January 1 to March 31,2025.

The sale would feature oneway fares starting from ₹1,199 for domestic flight bookings and ₹5,199 for international ones.

"Customers can also book seats for ₹99, enjoy discounts of up to 15% on pre-paid excess baggage and save up to 50% on the fast-forward service, for both domestic and international sectors," Indigo said in a statement. Internationally, several other airlines have also announced similar Black Friday sales, including Etihad Airways, Qatar Airways and American

**NARAYANAN V** Chennai, November 29

TVS MOTOR-BACKED premium electric vehicle (EV) maker Ultraviolette (UV) plans to reach full production capacity of 30,000 vehicles annually within the next 2-3 years, driven by the expansion of its domestic distribution network and entry into global markets. The Bengaluru-based firm on Friday officially entered the Chennai market with a new showroom, as part of its strategy to reach 25 cities by March 2025. It is currently present in eight cities including Ben-

The firm has officially entered the Chennai market with a new showroom, as part of its

strategy to reach 25 cities Ultraviolette currently by March 2025 offers the 'F77 Mach 2' brand of premium electric motorcycles, which competes in the 300-500cc mid-segment against ICE-powered models. Speaking on the sidelines, Subramaniam said the companywill begin retailing the F77 Mach 2 in Turkey, Germany, Spain, France, and Italy from early 2025. "Three years from now, 30% of our sales volume will come from overseas markets,"Subramaniam noted.

The sale usually starts after Thanksgiving and marks the beginning of the Christmas shopping season. In the USA, it is considered to be the busiest shopping period.


Several consumer companies have announced their Black Friday sale including

for travel until October 30, 2025. It can be availed only on the airline's website and

mobile apps. Air India will also not charge any convenience fee on bookings for domestic and international flights.

Moreover, it would offer additional discounts if bookings are made through UPI, internet banking and ICICI

Airlines. Singapore Airlines, which has a 25% stake in Air India, is also running its Black Friday sale since November 26.



galuru, Delhi and Hyderabad.

Narayan Subramaniam, cofounder and CEO of Ultraviolette, said, the company operates a production facility in Bengaluru with an annual capacity of 10,000-12,000 units per shift. "We are ramping up capacity in line with our

Securities and the Exchange Board of India ('SEBI').

The aim of the judicial restructuring proceedings, kickstarted by Pierer Mobility, is to agree on a reorganisation plan with the creditors within 90 days



**FROM THE FRONT PAGE** 

# GDP growth at 7-quarter low

THE GROWTH RATES declined both on annual and sequential bases in Q2, for manufacturing (2.2% on year), construction (7.7%), electricity (3.3%), mining (-0.1%) and financial services (6.7%).

"Trade, hotels, transport communications, etc," the largest services sector, too, showed the weakness of consumption. This sector which typically outgrows the GDP expanded at relatively subdued rates in Q1 (5.7%) and Q2 (6%) of the current fiscal.

Gross value added (GVA), the more accurate measure of economic activities, grew 5.6% in Q2, marginally higher than the GDP, whereas in the previous quarter, the GVA expanded at a higherrate (6.8%) than the GDP.

While many, including the RBI, maintain that prospects of private consumption, the mainstay of aggregate demand, looked bright on the back of improved agricultural outlook and rural demand, the NSO data don't corroborate it.

Private final consumption expenditure (PFCF) grew faster than the overall GDPO in Q2 at 6%, but it was on a much weaker base(2.6%) than the GDP's. Still, the PFCF retained its share in GDP at 56.3% for both Q1 and Q2 of the current fiscal, while the same was 52.9% in Q4FY24, because other components of



expenditure weakened.

Gross fixed capital formation (GFCF), the proxy of investment, grew just 5.4% in Q2 compared with 7.5% in Q1 and 9.7% in Q2FY24. A slowing of government capital expenditure -

down 14.7% on year for April-Octoberwith a likely fall in states' expenditures too in H1 – was one of the reasons for the low GFCF growth. Asset-creating spending by the general government is yet to gain ground after

the elections-induced torpor. The weakness of domestic demand, particularly urban consumption demand, in Q2 was severe enough to nullify positive contribution to GDP from exter-

nal demand. Net exports contributed positively to the GDP growth by 1.5 percentage points in Q2. The weakness of the manufacturing sector is clear from the modest 4% growth in index of industrial production in the first half of the current fiscal, compared with 6.3% and 7.3%, respectively, in the correspond-

tors of the economy, the bright spot was 'primary sector - agriculture & mining – which grew at 3% in Q2 compared to 2.7% in Q1.On the other hand, the secondary sector - manufacturing, electricity & construction - grew only 3.9% in Q2, much lower than 8.4% in Q1; and the ter-

tiary sector - services - grew at 7.1% in Q2 compared with 7.2% in Q1.

> The "agriculture, livestock, forestry and fishing" sector grew 3.5% in Q2, compared with 2% in Q1 and 1.7% on Q2FY24.

The GVA growth was 20 bps higher than the GDP growth in Q2, as the growth in "net taxes on products" declined to a sevenquarter low at 2.7%.

According to India Ratings and Research (Ind-Ra), the GDP growth in FY25 could be lower than GVA growth, which was not the case last year. In FY24, the GDP growth was 100 bps higher than the GVA growth at 8.2%.

that the proposed amendments

were designed to dilute their

stake in Aakash, a profitable

Upasna Bhardwaj, chief economist, Kotak Mahindra Bank, said that the GDP figures reflect "the highly disappointing" corporate earnings data. High frequency data so far suggest that a festivity-linked revival in activity may provide a marginally better growth figure in H2, but overall growth for FY25 is going to be around 100 bps lower than the RBI's estiing periods of FY24 and FY23. Among the three broad secmate, she said.

It's between US & Adani, says Centre

HE SAID THE government had not received any request to serve summons or arrest warrants in the matter. He said such requests are part of mutual legal assistance and are examined on merits.

The US Department of Justice had last week unsealed a criminal indictment against Adani and others for allegedly paying \$250 million in bribes to Indian officials to gain solar energy contracts and allegedly lying about the same to raise money from investors in the US.

US Attorney for Eastern District of New York Breon Peace had said, "As alleged, the defendants orchestrated an elaborate scheme to bribe Indian government officials to secure contracts worth billions of dollars and Gautam S Adani, Sagar R Adani and Vneet S Jaain lied about the bribery scheme as they sought to raise capital from US and international investors."

The group, in its response, reassured investors that none of the 11 public companies under the conglomerate's portfolio were facing



This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This advertisement does not constitute an offer or an

nvitation or a recommendation to purchase, to hold, to subscribe, or to sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated October 25, 2024, the "Letter of Offer" or ("LOF") filed with the BSE Limited ("BSE" or "Stock Exchange"), and the

Our Company was originally incorporated with the name and style of Priti Mercantile Company Limited under the Companies Act, 1956, and a certificate of incorporation was granted by the Registrar of Companies, U.P., Kanpur on February 04, 1985. Subsequently, the name of the Company was changed from "Priti Mercantile Company Limited" to its present name i.e. "PMC Fincorp imited" and a fresh certificate of incorporation was granted by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh on March 20, 2014. For detailed information of the change of Registered Office please fer to chapter "General Information" on page number 47 of the Letter of Offer.

> Registered Office: B-10, VIP Colony, Civil Lines, Rampur, Uttar Pradesh - 244901, India Corporate Office: Flat No. 201 & 202, 2nd Floor, Rattan Jyoti Building, 18, Rajendra Place, New Delhi- 110008, India Telephone No.: 011-47631025, 26, 27; Email: contact@pmcfincorp.com; Website: www.pmcfincorp.com Contact Person: Mr. Kailash, Company Secretary, and Compliance Officer Corporate Identification Number: L27109UP1985PLC006998

### PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. RAJ KUMAR MODI, MS. REKHA MODI, MR. PRABHAT MODI AND M/S RAJ KUMAR MODI HUF

### FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF PMC FINCORP LIMITED ONLY

SSUE OF UP TO 17,80,20,400 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT AN ISSUE PRICE OF ₹2.75/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹1.75/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO ₹4,895.56/- LAKH ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 3 (THREE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON FRIDAY, OCTOBER 25, 2024 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 128 OF THE LETTER OF OFFER

### BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of PMC Fincorp Limited wishes to thank all its shareholders and investors for their response to the Issue which opened for subscription on Thursday, November 07, 2024 and closed on Tuesday, November 19, 2024, and the last date for on-market renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, November 12, 2024, Out of the total 6,269 Applications for 22,80,38,530 Rights Equity Shares, 888 Applications for 39,07,900 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid applications received were 5,401 Application for 18,69,62,993 Rights Equity Shares, which was 105.02% of the issue size. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of allotment nalized on November 25, 2024, the Registrar to the Issue and BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on November 25, 2024, allotted 7,80,20,400 Rights Equity Shares to the successful applicants. All valid applications have been considered for all otment

### The breakup of valid applications received through ASBA (after technical rejections) is given below

Category	Number of Valid Applications Received	Number of Rights Equity Shares applied for	No. of Rights Equity Shares Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares Allotted against Additional Rights Equity Shares Applied for (B)	Total Rights Equity Shares Allotted (C=A+B)
Eligible Equity Shareholders	5,341	17,72,70,588	8,77,68,847	8,50,60,215	17,28,29,062
Renouncees	60	96,92,405	51,91,338	0	51,91,338
Total	5,401	18,69,62,993.00	9,29,60,185	8,50,60,215	17,80,20,400

### Information regarding total Applications received:

	Applications	Received	Rights E	quity Shares Applied fo	Rights Equity Shares Allotted				
Category	Number	%	Number	Value	%	Number	Value	%	
Eligible Equity Shareholders	5,406	85.96	21,47,12,210	59,04,58,577.50	94.16	17,28,29,062	47,52,79,920.50	97.08	
Renouncees*	61	0.97	96,92,905	2,66,55,488.75	4.25	51,91,338	14,27,61,79.50	2.92	
Other Rejected Bids	822	13.07	36,33,415	99,91,891.25	1.59	0	0	0.00	
Total	6,289	100.00	22,80,38,530	62,71,05,957.50	100.00	17,80,20,400	48,95,56,100.00	100.00	

indictment.

# Aster to be No. 3 hospital chain...

THE COMPANY ALSO said the merger opens up opportunities for both brownfield and greenfield expansion, with plans for 3,500 new beds planned between FY24 and FY27.

Aster is valued at a multiple of 36.6x on FY24 adjusted post IND AS EV/Ebitda, while QCIL is valued at a multiple of 25.2x based on FY24 adjusted post INDAS EV/Ebitda.

Under the agreed swap ratio, Aster shareholders will hold 57.3% and QCIL shareholders 42.7% in the merged entity. The entity will be jointly controlled by Aster promoters and Blackstone, holding 24% and 30.7%, respectively. Azad Moopen will continue as executive chairman of the merged entity, while Varun Khanna, group MD of QCIL, will serve as the MD and Group CEO of the

newly-formed Aster DM Quality Care.

> "The new combined entity, AsterDM Quality Care, is poised to become one of the largest healthcare players in the industry, setting new benchmarks in patient-centric care, innovation and accessibility," said Azad Moopen, founder and chairman of Aster DM Healthcare. Ahead of the merger, Aster will acquire a 5% stake in QCIL

from Blackstone and TPG through a primary share 6.97% stake in Aakash. The petiissuance for a 3.6% stake under tion alleged that the amend-'initial share acquisition'. Following this, QCIL will be ment to the AoA violated sharemerged into Astervia a scheme of amalgamation. The transaction is subject to shareholder agreement (MFA). and regulatory approvals.

Meanwhile, shares of Aster DM Healthcare closed 2% higher on the NSE at ₹500.55.

## Aakash AoA: SC asks NCLAT to take call

THIS RESOLUTION, PROentity acquired by Byju's in **POSED** during an EGM, had the 2021 for \$1 billion. They have potential to dilute the sharealso contended that Byju's, holding rights of certain financially, struggling investors.Aakash challenged the depended heavily on Aakash for its valuation and operational NCLT order in the Karnataka High Court, arguing that the tristability. However, Aakash and its shareholders have countered bunal had failed to provide sufthis saying that the investors ficient reasons for halting the resolution. The NCLT's Novemhad obtained shares as a result ber 20 order was in response to of a merger framework agreement (MFA). The merger did not an oppression and mismanagement petition filed by Singapore got through as planned, as a VIITopcoIPTE, an entity owned result of which they do not have by Blackstone, which holds a any right in the company. They have also pointed out that Think and Learn had initiated arbitration against it in the Sinholder rights granted under a gapore International Arbitraprevious merger framework tion Centre (SIAC) in this regard. In its November 20 order, The investors have argued

the NCLT directed Aakash to refrain from enforcing the EGM resolution until the main petition was resolved.

"the investors (identified on the basis of PAN) whose names do not appear in the list of Eligible Equity Shareholders on the record date and who hold the REs as on the issue closing date and have applied in the Issue are considered as Renouncees.

Intimation for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the investors has been completed on November 25, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking of funds in case of ASBA Application were given on November 25, 2024. The listing application was filed with BSE on Tuesday. November 26, 2024, and subsequently the listing approval was received on Wednesday, November 27, 2024 from BSE. The credit of Rights Equity Shares in the dematerialized form to the espective demat account of allottees was completed on November 28, 2024 & November 29, 2024, in CDSL & NSDL respectively. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE, the Rights Equity Shares allotted in the issue are expected to commence trading on BSE with effect from Tuesday December 03, 2024. The Rights Equity Shares will traded under the same ISIN as Equity Shares (i.e. INE793G01035). In accordance with the SEBI Circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of ISIN pertaining to Rights Entitlement has been sent to NSDL and CDSL on Thursday, November, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimenclause of the BSE Limited." on page 175 of the LOF.



### Skyline Financial Services Private Limited Address: D-153A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110020 Telephone: 011-40450193-197 E-mail: ipo@skylinerta.com / grievances@skylinerta.com Investor grievance: grievances@skylinerta.com Website: www.skylinerta.com Contact Person: Mr. Anui Rana SEBI Registration No: INR000003241

nvestors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), E-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBAAccount number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgment slip.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE, THE RIGHTS EQUITY SHARES, OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

A MARKAGE A CONTRACTOR OF	For PMC Fincorp Limited
	On behalf of the Board of Directors
	Sd/-
Date: November 29, 2024	Kailash
Place: New Delhi	Company Secretary and Compliance Officer

The letter of Offer is available on the website of SEBI www.sebi.gov.in, the Stock Exchange i.e. BSE at www.bseindia.com and the company i.e. www.pmcfincorp.com . Investors should note that the investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled 'Risk Factors' beginning on page 23 of the LOF.



